

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 239]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 16 जून 2014—ज्येष्ठ 26, शक 1936

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 जून 2014

अधिसूचना क्र. 12 एफ-1-32-2011-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 की उपधारा (1) के खण्ड-ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा जिला बड़वानी की निम्नलिखित नगर परिषद् में उनके नाम के सामने अंकित व्यक्तियों को वर्तमान परिषद् के सहविस्तारी कार्यकाल या राज्य शासन के अन्य आदेश तक, जो भी पहले हो तक, एल्डरमेन के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है :—

क्र. (1)	नगर परिषद् का नाम (2)	एल्डरमेनों का नाम एवं पता (3)
1	पानसेमल	1. श्री बबलु खोरी पिता श्री कुंडलिक खोरी, वार्ड नं. 9, पानसेमल 2. श्री तस्तीम कुरैशी पिता श्री वसुद्दीन कुरैशी, वार्ड नं. 11, पानसेमल
2	खैतिया	1. श्री साहेबराव चौधरी पिता श्री गुलाबराव चौधरी, वार्ड नं. 11, खैतिया 2. श्री हीरालाल संचेती पिता श्री मोतीलाल संचेती, वार्ड नं. 1, खैतिया
3	पलसूद	1. श्री योगेन्द्र कुशवाह पिता श्री रामकिशन कुशवाह, वार्ड नं. 5, पलसूद 2. श्री योगेश शर्मा पिता श्री शांतिलाल शर्मा, वार्ड नं. 6, पलसूद
4	अंजड	1. श्री अश्विन चौहान पिता श्री अमरसिंह चौहान, वार्ड नं. 2, अंजड 2. श्री इदरीश खान पिता श्री रफीक खान, वार्ड नं. 12, अंजड
5	राजपुर	1. श्री जितेन्द्र ठक्कर पिता श्री महेन्द्र ठक्कर, वार्ड नं. 6, पुलिस थाने के सामने 2. श्री विजय सोनगड़े, पिता श्री सुभाष सोनगड़े, वार्ड नं. 1, बड़वानी रोड, राजपुर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, उपसचिव.